



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1252]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2017/वैशाख 15, 1939

No. 1252]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2017/VAISAKHA 15, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 मई, 2017

का.आ. 1415(अ).—विकास परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियमावली, 1952 के नियम 2, 3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा लुगदी, कागज और संबद्ध उद्योग विकास परिषद् की स्थापना करती है तथा सरकार के राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त परिषद् के रूप में नियुक्त करती है, अर्थातः—

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री मधुकर मिश्रा, एमडी, स्टार पेपर मिल्स लि., द्वितीय तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-100002	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (कागज प्रभाग के प्रभारी) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली, 110001	सदस्य
3.	अध्यक्ष, इंडियन पेपर मेनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईपीएमए) चतुर्थ तल, पीएचडी हाऊस, 4/2 सीरी इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110016	सदस्य
4.	अध्यक्ष, इंडियन एग्री एंड रिसाइक्ल्ड पेपर मिल्स एसोसिएशन (आईएआरपीएमए), 404, विक्रान्त टावर, 4, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008	सदस्य
5.	अध्यक्ष, इंडियन न्यूजप्रिंट मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (आईएनएमए), 57, पंचकुईयां रोड, नई दिल्ली 110001	सदस्य

6.	अध्यक्ष, इंडियन रिसाइकिल्ड पेपर मिल एसोसिएशन (आईआरपीएमए), सी/ओ खातेमा फाइबर्स, 404-405 विकास दीप बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली, 110092	सदस्य
7.	श्रीरामप्रवीन स्वामीनाथन सीएमडी, इंटरनेशनल पेपर एपीपीएम लि., कृष सेफायर बिल्डिंग, 8वां तल, 1-89/3/बी/40 से 42/केएस/801 हाइटेक सिटी मेन रोड, माध्यापुर, हैदराबाद-500081 तेलंगाना	सदस्य
8.	श्री जे.पी. नारायण, सीईओ, सेंचुरी पल्प एंड पेपर घनश्यामधाम पीओ-लालकुआं, नैनीताल, उत्तराखंड 262402	सदस्य
9.	सीएमडी, हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. 75-सी, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, 700016	सदस्य
10.	श्री ऐ.वेलेंगरी, उप प्रबंध निदेशक, टीएनपीएल, 67, माउंट रोड, गिंडी, चेन्नई-600032 तमिलनाडु	सदस्य
11.	श्री अनिल कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक, श्रेयांश इंडस्ट्रीज लि., (इकाई: श्रेयांश पेपर) वर्क्स, अहमदगढ़-148021 संगरूर पंजाब	सदस्य
12.	श्री वेद कृष्ण प्रबंध निदेशक, यश पेपर्स लि. यश नगर, फैजाबाद 224135, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13.	श्री तुषार शाह, प्रबंध निदेशक, दमन गंगा पेपर लि. 256, सेलवस रोड, पीओ बाक्स एम नं. 65, जीआईडीसी, वापी 39695, गुजरात	सदस्य
14.	श्री मनीष पटेल, प्रबंध निदेशक, दि साऊथ इंडिया पेपर मिल्स लि., 1205/1206 प्रेस्टीज मेरेडियन द्वितीय, एम जी रोड बंगलौर-560001	सदस्य
15.	श्री राहुल खन्ना, खन्ना पेपर मिल्स लि., बी-26, इन्फोसिटी—1 सेक्टर 34, गुडगांव 122002 हरियाणा	सदस्य
16.	निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, ई-2 एमआईडीसी एरिया, पो.बाक्स 9432 अंधेरी (ईस्ट) मुंबई 400093 महाराष्ट्र	सदस्य
17.	अध्यक्ष, लुगदी तथा कागज प्रौद्योगिकी विभाग आईआईटी रूड़की, (सहारनपुर कैम्पस), पेपर मिल रोड, सहारनपुर-247001, उत्तर प्रदेश	सदस्य
18.	श्री समजी करिया, अध्यक्ष, फेडरेशन आफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, कामर्स हाऊस, नगिनदास मास्टर रोड, काला घोड़ा, फोर्ट, मुंबई 400023 महाराष्ट्र	सदस्य
19.	श्री कमल चोपड़ा, अध्यक्ष, आल इंडिया फेडरेशन आफ मास्टर प्रिंटर्स, 605, छठवां तल, मधुबन, 5 नेहरू पैलेस, नई दिल्ली -110019	सदस्य
20.	निदेशक/निदेशक-प्रभारी केंद्रीय लुगदी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर-247001, उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव

2. विकास परिषद (प्रक्रियात्मक) नियमावली, 1952 के नियम 2 के खंड (ग) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा निदेशक/निदेशक-प्रभारी, केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) को उक्त विकास परिषद के सदस्य-सचिव के कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त करती है।

[फा. सं. 8(3)/2016-कागज]

वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****ORDER**New Delhi, the 4th May, 2017

S.O. 1415(E).—In exercise of powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 3, 4 and 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby establishes a Development Council for Pulp, Paper and Allied Industries and appoints the following persons to be the members of the said Council, for a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

S. No.	Name	Designation
1	Shri Madhukar Mishra, MD, Star Paper Mills Ltd., 2 nd Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 100 002.	Chairman
2	Joint Secretary, (In charge, Paper Division), DIPP, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi 110 001.	Member
3	President, Indian Paper Manufacturers Association (IPMA), 4 th Floor, PHD House, 4/2 Siri Institutional Area, New Delhi 110 016.	Member
4	President, Indian Agro and Recycled Paper Mills Association (IARPM), 404, Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi-110008.	Member
5	President, Indian Newsprint Manufacturers Association (INMA), 57, Panchkuian Road, New Delhi- 110001.	Member
6	President, Indian Recycled Paper Mill Association (IRPMA), C/o Khatema Fibres, 404-405 Vikas Deep Building, District Centre, Laxmi Nagar, New Delhi 110092.	Member
7	Shri Rampraveen Swaminathan, CMD, International Paper APPM Ltd., Krishe Sapphire Building, 8 th Floor, 1-89/3/B/40 to 42/KS/801 Hitech City Main Road, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana.	Member
8	Shri J.P. Narayan, CEO, Century Pulp and Paper, Ghanshyamdham, PO- Lalkuan, Nainital, Uttarakhand 262 402.	Member
9	CMD, Hindustan Paper Corporation Ltd., 75-C, Park Street, Kolkata, 700 016.	Member
10	Shri A. Velliangiri, Deputy Managing Director, TNPL, 67, Mount Road, Guindy, Chennai – 600 032, Tamil Nadu.	Member
11	Shri Anil Kumar, CEO & Executive Director, Shreyans Industries Ltd., (Unit : Shreyans Paper) Works, Ahmedgarh – 148 021 Sangrur, Punjab.	Member
12	Shri Ved Krishna, MD, Yash Papers Ltd., Yash Nagar, Faizabad 224135, Uttar Pradesh	Member
13	Shri Tushar Shah, MD, Daman Ganga Papers Ltd., 256, Selvas Road., P.O. Box MNo. 65, GIDC, Vapi 396 95, Gujarat.	Member
14	Shri Manish Patel, MD, The South India Paper Mills Ltd., 1205/1206 Prestige Meridian 2 nd , M.G. Road, Bangalore - 560 001.	Member
15	Shri Rahul Khanna, Khanna Paper Mills Ltd., B-26, Infocity-1, Sector 34, Gurgaon 122 002, Haryana.	Member
16	Director, Indian Institute of Packaging, E-2, MIDC Area, Post Box 9432, Andheri (East) Mumbai-400 093 Maharashtra.	Member
17	Head, Department of Pulp & Paper Technology, IIT Roorkee, (Saharanpur Campus), Paper Mill Road, Saharanpur- 247001, Uttar Pradesh.	Member
18	Shri Samji Karia, President, Federation of Paper Traders Association of India, Commerce House, Nagindas Master Rd., Kala Ghoda, Fort, Mumbai- 400 023 Maharashtra.	Member

19	Shri Kamal Chopra, President, All India Federation of Master Printers, 605, 6 th Floor, Madhuban, 5 Nehru Place, New Delhi-110 019.	Member
20	Director/Director – In-Charge Central Pulp and Paper Research Institute Saharanpur-247 001, Uttar Pradesh.	Member - Secretary

2. In pursuance of clause (c) of rule 2 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the Director/Director –In – Charge, Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur(Uttar Pradesh) to carry on the functions of the Member Secretary to the said Development Council.

[F.No.8(3)/2016-Paper]

VANDANA KUMAR, Jt. Secy.